

January 29, 2025

To

The Manager
Listing Department

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,
Mumbai- 400001
Scrip Code: 533344

Mumbai- 400051

The Manager
Listing Department

National Stock Exchange of India

Limited

Exchange Plaza, C-1, Block G,

Bandra- Kurla Complex, Bandra (East),

Mumbai- 400051

Scrip Symbol: PFS

Sir/ Madam,

Sub: Newspaper Advertisement of Un-audited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended $31^{\rm st}$ December 2024.

Pursuant to applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 please find enclosed herewith the Newspaper clippings of the Extract of the Un-audited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December 2024, published as per Regulation 47(1)(b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 in English Newspaper (Business Standards) and in Regional Language Newspaper (Business Standards) on 29th January 2025.

This is also available on the Website of the Company at www.ptcfinancial.com

This is for your information and record please.

Yours faithfully,

For PTC India Financial Services Limited

Manohar Balwani Company Secretary

Enclosed: as above

PTC India Financial Services Ltd. (CIN: L65999DL2006PLC153373)

(A subsidiary of PTC India Limited)

Registered Office: 7th Floor, Telephone Exchange Building, 8 Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066, India Board: +91 11 26737300 / 26737400 Fax: 26737373 / 26737374, Website: www. ptcfinancial.com, E-mail: info@ptcfinancial.com

IOT Utkal Energy Services Limited

Regd Office: Plot no.188/183, Zero Point, Udayabata, Paradeep, Jagatsinghpur Odisha, India, 754141 CIN: U452080R2009PLC011389 Phone: +91 22 6930 9500

Email: girjesh.shrivastava@iavl.com Website: www.iuesl.co STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND PERIOD ENDED 31.12.2024 Rs. in Crores

Sr. No.	Particulars	3 Months Ended	Preceding 3 Months Ended	Correspond- ing 3 Months ended Previous Year	Year to Date Figures for Current period ended	Year to Date for Previous Year Ended	Previous Year Ended
		31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operation	131.67	131.05	135.68	393.12	390.48	520.84
2	Total Expenses	83.17	82.94	87.17	248.49	245.80	328.53
3	Profit from operations before other income, exchange gain / (loss) on swap contracts, finance costs and exceptional items	48.50	48.11	48.51	144.63	144.68	192.31
4	Profit from ordinary activities before finance costs and exceptional items	58.15	58.67	56.58	173.85	167.67	224.20
5	Profit from ordinary activities after finance costs but before exceptional items	32.06	30.73	23.71	90.57	65.14	90.91
6	Profit from ordinary activities before tax	32.06	30.73	23.71	90.57	65.14	90.91
7	Profit from ordinary activities after tax	23.99	23.01	17.73	67.77	48.73	68.03
8	Net Profit for the period	23.99	23.01	17.73	67.77	48.73	68.03
9	Total Comprehensive Income	23.99	23.01	17.73	67.77	48.73	68.03
10	Paid up Equity Share Capital (Face value per share Rs 10)	526.28	526.28	526.28	526.28	526.28	526.28
11	Paid up Debt Capital	982.37	1,046.45	1,235.21	982.37	1,235.21	1,174.62
12	Reserves excluding Revaluation Reserve	(11.28)	(35.26)	(98.36)	(11.28)	(98.36)	(79.06)
13	Net Worth	515.00	491.01	427.92	515.00	427.92	447.23
14	Outstanding redeemable preference shares (quantity and value);		-	-	-	-	-
15	Capital redemption reserve/ debenture redemption reserve;						
16	Earnings per share (Basic and Diluted) (Rs) (of Rs 10 each - Not annualised)	0.46	0.44	0.34	1.29	0.93	1.29
17	Debt Equity Ratio	1.91	2.13	2.89	1.91	2.89	2.63
18	Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	1.22	1.20	1.18	1.20	1.16	1.23
19	Interest Service Coverage Ratio (ISCR)	4.51	4.24	3.54	4.24	3.38	2.87

- a) The above is an extract of the detailed format of the audited financial results of the Company for the Quarter an period ended on 31st December 2024 filed with BSE Limited (Stock Exchange) under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015. The full format of the audited financial results is available on the website of the Stock Exchange i.e BSE Limited and the website of the company at URL: https://iuesl.com/ investor-relations/2024.
- b) The above audited financial results were reviewed by the Audit Committee and then approved by the Board of Directors at their meeting held on 27th January 2025.
- For the items reffered in Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 the pertinent disclosures have been made available on the website of the Stock Exchange i.e BSE Limited and the website of the company at URL: https://luesl.com/investor-relations/2024.
- d) The figures for the corresponding previous period have been regrouped / restated wherever necessary, to make them comparable.

For IOT Utkal Energy Services Limited SD/

Relith Bhaska Place: Paradio Wholetime Director & CEO Date: 27th January 2025 DIN: 10283897

CREAMLINE DAIRY PRODUCTS LIMITED

CIN: U15201TG1986PLC006912 Registered Office: 6-3-1238/B/21, Asif Ave. Raj Bhavan Rd

Somajiguda, Hyderabad, Telangana 500082. Website: www.creamlinedairy.com Ph.:+91-40-23412323 Fax: +91-40-23323353 Email: iersev@godreicdpl.com

[Regulation 33 and Regulation 52 (8), read with Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations)] EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2024

SL No.	Particulars	Quarter Ended December 31, 2024	Quarter Ended September 30, 2024	Quarter Ended December 31, 2023	Nino Months Ended December 31,2024	Nino Months Ended December 31,2023	Year Ended Narch 31, 2024	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
1	Total Income from Operations	36,983.42	40,266.41	36,617.78	20,105.88	118,074.27	157,286.16	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	584.25	465.17	513.11	2,426.00	(450.31)	1,072.83	
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	584.25	465.17	513.11	2,426.00	(450.31)	1,072.83	
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	436.11	(271.58)	513.11	1,212.65	(450.31)	779.19	
5	Total Comprehensive Income for the period Comprising Profit! (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	453.01	(283.92)	514.91	1,173.63	(439.30)	756.40	
6	Paid up Equity Share Capital	1,132.47	1,132.47	1,132.47	1,132.47	1,132.47	1,132.47	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	11,751.63	11,298.63	9,382.30	11,751.63	9,382.30	10,578.00	
8	Securities Premium Account	5,720.20	5,720.20	5,720.20	5,720.20	5,720.20	5,720.20	
9	Net worth	12,884.10	12,431.10	10,514.77	12,884.10	10,514.77	11,710.47	
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt*	14,014.39	15,724.24	24,791.54	14,014.39	24,791.54	24,160.56	
11	Outstanding Redeemable Preference Shares							
12	Debt Equity Ratio	1.09	1.26	2.36	1.09	2.36	2.06	
13	Earnings Per Share (Face Value of Rs.10/- per share) (for continuing and discontinued operations)*							
	1. Basic	3.85	(2.40)	4.53	10.71	(3.98)	6.88	
	2. Diluted	3.85	(2.40)	4.53	10.71	(3.98)	6.88	
14	Capital Redemption Reserve				-			
15	Debenture Redemption Reserve	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	
16	Debt Service Coverage Ratio	0.52	0.31	0.50	0.69	0.53	0.81	
17	Interest Service Coverage Ratio	2.84	2.22	2.01	3.09	0.70	1.52	

Rules there under, whichever is applicable

Represents total outstanding debt (Long Term & Short Term) as on the respective dates

The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31 December, 2024 filed with the Stock Exchange(s) under Regulation 33 and Regulation 52 of the Securities and Exchange Board of India (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31 December, 2024 are available on the website of the National Stock

Exchange of India Limited (www.nseindia.com). The same is also made available on the website of the Company (www.nseamlinedairy.com).

For the other line items referred in regulation 52 (4) of the LOOR Regulations, partient disclosures have been made to the National Stock Exchange of India Limited and can be accessed on the their website (www.nseindia.com). The above Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its Meating held on Tussday, 28 January 2025. The Financial Results have been subjected to limited review by the Statistical Auditors of the Company and the review by the Statutory Auditors of the Company and the auditors have expressed unmodified opinion.

> By order of the Board of Directors of Creamline Dairy Products Limited

lace : Hyderabad Date: 28 January 2025 D. Chandra Sekhar Reddy Whole-Time Director DIN: 00063691

PTC India Financial Services Limited



STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024 (₹ in lacs)

ш	- 1			Statidatorie										
		Particulars	Q	luarter ende	d	Nine mo	nths ended	Year ended		Quarter end	ed	Nine mon	ths ended	Year ended
I۱۱	VO.		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
IL			31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024	31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024
П	1	Total income from operations	15,807.15	16,339.79	20,432.20	48,269.29	58,431.94	76,078.27	15,807.15	16,339.79	20,432.20	48,269.29	58,431.94	76,078.27
	2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	8,067.25	6,340.60	6,748.20	20,342.33	19,671.27	21,597.80	8,067.25	6,340.60	6,748.20	20,342.33	19,671.27	21,597.80
	3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	8,067.25	6,340.60	6,748.20	20,342.33	19,671.27	21,597.80	8,067.25	6,340.60	6,748.20	20,342.33	19,671.27	21,597.80
	4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	6,714.96	4,734.08	5,036.80	15,889.26	14,689.95	16,074.90	6,714.96	4,734.08	5,036.80	15,889.26	14,689.95	16,074.90
	5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	6,624.84	4,703.61	4,995.38	15,756.73	14,616.06	15,992.53	6,624.84	4,703.61	4,995.38	15,756.73	14,616.06	15,992.53
П	6	Equity Share Capital	64,228.33	64,228.33	64,228.33	64,228.33	64,228.33	64,228.33	64,228.33	64,228.33	64,228.33	64,228.33	64,228.33	64,228.33
	7	Reserves (excluding revaluation reserves as per balance sheet as at March 31, 2024)						1,89,645.75						1,89,645.75
	8	Earnings per share (not annualised) (Face value ₹ 10 per share) in ₹						100000						
Ш		- Basic	1.05	0.74	0.78	2.47	2.29	2.50	1.05	0.74	0.78	2.47	2.29	2.50
IL		- Diluted	1.05	0.74	0.78	2.47	2.29	2.50	1.05	0.74	0.78	2.47	2.29	2.50

Note:

Place: New Delhi

Date: January 28, 2025

The above is an extract of the detailed format filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results is available on the Stock Exchange websites of NSE and BSE at www.nseindia.com and www.bseindia.com/respectively and Company's website at http://www.ptcfinancial.com/financialinformation.html.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-Balaji Rangachari

Managing Director and CEO



(CIN: L65999DL2006PLC153373)

Registered Office: 7th Floor, Telephone Exchange Building, 8 Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110066, India

Board: +91 11 26737300 / 26737400 Fax: 26737373 / 26737374 Website: www.ptcfinancial.com, E-mail: info@ptcfinancial.com

MAHUA BHARATPUR EXPRESSWAYS LIMITED

	CIN - U4520	3DL2005PLC	329746				
Sta	tement of Unaudited Financial Results for the Quarter	and nine m	onths ende	d Decembe	r 31, 2024	(Amo	unt in Lacs)
ŝı			For the		Fo	r the	For the
No.	Particulars	9	uarter ended	1	nine mor	year ended	
	120 (13 (A) (13 (A)		30.09.2024 (Unaudited)		31.12.2024 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)
1	Total Income from Operations	3,271.42	2,808.52	2,984.99	9,088.16	8,371.27	11,505.58
2	Net Profit / (Loss) for the period/year						
	(Before Tax, Exceptional and / or Extraodinary Items)	1,377.50	357.38	517.19	2,878.37	1,544.03	2,259.16
3	Net Profit / (Loss) for the period/year Before Tax.						
	(after Exceptional and / or Extraodinary Items)	1,377.50	357.38	517.19	2,878.37	1,544.03	2,259.16
4	Net Profit / (Loss) for the period/year after tax						
	(after Exceptional and / or Extraodinary Items)	1,376.20	357.38	517.19	2,877.07	1,560.61	2,173.05
5	Total Comprehensive Income for the period/year (Comprising profit / (Loss) for the period/year (after tax) and	12000000		740 335	2 25 35.		203893
_	other Comprehensive Income (after tax)	1,376.11	353.45	516.92	2,874.54		2,167.76
6	Paid-up equity share capital (Face value of Rs. 10 each)	9,936.00	9,936.00	9,936.00	9,936.00	9,936.00	9,936.00
7	Other equity (Reserves excluding revaluation reserves)	(6,750.89)	(8,127.00)	(10,237.27)	(6,750.89)	(10,237.27)	(9,625.43)
8	Security Premium Account						
9	Net worth	3,185.11	1,809.00	(301.27)	3,185.11	(301.27)	310.57
10	Paid up debt capital / Outstanding debt	18,540.20	21,004.14	22,485.57	18,540.20	22,485.57	22,491.83
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	-		7.4
12	Debt / Equity Ratio	5.82	11.61	(74.64)	5.82	(74.64)	72.42
13	Earning per share (EPS) (Face value of Rs. 10/- each) (for Continuing and discontinued operations)						
	1. Basic	1.39	0.36	0.52	2.90	1.57	2.19
	2. Diluted	1.39	0.36	0.52	2.90	1.57	2.19
14	Capital Redemption Reserve	-		-	-	-	
15	Debenture redemption reserve (Refer note 2)						
16	Debt Service Coverage Ratio	0.65	1.05	0.20	1.07	0.50	0.66
17	Interest Service Coverage Ratio	4.54	2.33	3.04	3.47	2.83	2.97

The above unaudited financial results of the Company for the quarter and nine months period ended December 31, 2024 have been reviewed and approved by the Audit Committee & Board of directors in their meeting held on January 28, 2025. The statutory auditors of

the Company have carried out limited review of the unaudited financial results.

In the absence of distributable profits, the Company has not created Debenture Redemption Reserve (DRR). The Company is regular in redeeming debentures matured during the period.

3 Information as required by Regulation 52(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is as per separate Annexure attached, the pertinent disclosures have been made to the BSE Limited

b. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filled with the BSE Limited under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of the BSE Limited and on the Company website: https://mbel.co.in/investor-relation/

For and on behalf of Board of Directors

MAHUA BHARATPUR EXPRESSWAYS LIMITED

DIN: 10043844

ROUTE MOBILE LIMITED

and can be accessed on https://www.bseindia.com.



CIN: L72900MH2004PLC146323

Place : Noida Date: January 28, 2025

Registered Office: SanRaj Corporate Park - 4th Dimension, 3th Floor, Mind Space, Malad (West), Mumbai - 400064. Tel: (022) 4033 7676 | Fax: (022) 4033 7650 | Website: www.routemobile.com | Email: investors@routemobile.com

Extract of the consolidated un-audited financial results of Route Mobile Limited and its subsidiaries for the quarter and nine months ended December 31, 2024, prepared in compliance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS)

(₹ in crores, except for share data)

Particulars	Quarter ended December 31, 2024	Nine months ended December 31, 2024	Quarter ended December 31, 2023
Revenue from operations	1,183.79	3,400.62	1,024.31
Profit before exceptional item and tax	106.95	340.88	116.59
Profit before tax	106.95	347.16	131.63
Profit for the period	85.47	273.65	113.64
Total comprehensive income #	67.89	273.34	129.38
Profit attributable to:			
Owners of the Company	82.48	262.27	105.74
Non-controlling interest	2.99	11.38	7.9
Total comprehensive income attributable to:			
Owners of the Company	64.31	261.20	121.4
Non-controlling interest	3.58	12.14	7.9
Paid up share capital (par value ₹ 10/- each fully paid)	62.96	62.96	62.6
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year.	2086.80	2086.80	2086.8
Earnings per share (par value ₹ 10/- each)**	43000350	9 39 99 39	
Basic (in ₹)	13.10	41.72	16.89
Diluted (in ₹)	13.10	41.72	16.89

* Total Comprehensive income comprises of profit for the period after tax and other comprehensive income after tax

1. Notes pertaining to the current quarter

- a. The un-audited interim condensed consolidated financial statements for the quarter and nine months ended December 31, 2024 have been taken on record by the Board of Directors at its meeting held on January 28, 2025. The information presented above is extracted from the un-audited interim condensed consolidated financial statements. The un-audited interim condensed consolidated financial statements are prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (Ind-AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant amendment rules thereafter
- b. The Board of Directors have recommended an interim dividend of 30% (₹ 3 per share of face value ₹ 10 each) at its meeting held on January 28, 2025.

(₹ in Crores)

Particulars	Quarter ended December 31, 2024	Nine months ended December 31, 2024	Quarter ended December 31, 2023
Revenue from operations	206.29	623.83	174.49
Profit before exceptional item and tax	38.92	137.53	53.94
Profit before tax	38.92	137.53	53.94
Profit for the period	29.05	105.26	44.97
Total comprehensive income #	29.01	104.60	45.02

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Unaudited Financial Results filled with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Regulations) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Unaudited Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s), www.nseindia.com and www. bseindia.com, and on the Company's website, www.routemobile.com.

For Route Mobile Limited

Date : January 28, 2025 Place: Mumbai

Rajdipkumar Gupta Managing Director



Oswal Agro Mills Limited

CIN: L15319PB1979PLC012267

Corporate Office: 7th Floor, Antriksh Bhawan, 22, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001;

Extract of the Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter and Nine months ended 31st December, 2024 (Amount in ₹ Lakh)

			Standa	lone		
	Qu	arter Ended		Nine Mon	ths Ended	Year Ended
Particulars	31.12.2024 (Unaudited)	30.09.2024 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)
Total Income from Operations	6,246.27	35.82	44.15	6,327.76	125.23	186.73
Net Profit/(Loss) for the period/year before exceptional item and tax	5,814.88	33.21	72.42	6,079.05	213.18	393.36
Net Profit/(Loss) for the period/year after exceptional item (before tax)	5,814.88	33.21	72.42	6,079.05	213.18	390.83
Net Profit/(Loss) for the period/year after tax	4,351.54	24.82	105.07	4,547.91	209.18	175.36
Total Comprehensive income for the period/year [comprising profit/(loss) for the period/year (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	4,353.40	1.63	105.11	4,528.44	209.29	182.81
Paid up Equity Share Capital (Face Value of ₹10/- each)	13,423.48	13,423.48	13,423.48	13,423.48	13,423.48	13,423.48
Other equity (excluding revaluation reserves) as shown in the Audited Balance Sheet	-	-	-			47,242.26
Basic and Diluted Earnings per share (Face Value of ₹10/- each)	3.24	0.02	0.08	3.39	0.16	0.13

Note:-The above is an extract of the detailed format of the Quarterly and Nine months ended Standalone Unaudited Financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015. The full format of the Financial results are available on the stock exchange website www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website www.oswalagromills.com.

Date: 28-01-2025 Place:- New Delhi

Scan QR Code for the complete

For Oswal Agro Mills Limited sd/-Narinder Kumar **CEO and Whole Time Director** DIN: 01936066

Extract of the Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine months ended 31th December, 2024

			Cons	olidated		,
		Quarter Ende	d	Nine Mor	nths Ended	Year Ended
Particulars	31.12.2024 (Unaudited)	30.09.2024 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)
Total Income from Operations	6,246.27	35.82	44.15	6,327.76	125.23	186.73
Net Profit/(Loss) for the period/year before exceptional item and tax	5,814.88	33.21	72.42	6,079.05	213.18	393.36
Net Profit/(Loss) for the period/year after exceptional item (before tax)	5,814.88	33.21	72.42	6,079.05	213.18	390.83
Profit for the period/Year after tax but before share of net profit of investments accounted for using equity method	4,351.54	24.82	105.07	4,547.91	209.18	175.36
Net Profit/(Loss) for the period/year after tax	4,388.23	205.05	(16.57)	4,971.63	343.14	457.34
Total Comprehensive income for the period/year [comprising profit/(loss) for the period/year (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	4,396.83	203.89	(16.53)	4,983.62	343.28	475.60
Paid up Equity Share Capital (Face Value of ₹10/- each)	13,423.48	13,423.48	13,423.48	13,423.48	13,423.48	13,423.48
Other equity (excluding revaluation reserves) as shown in the Audited Balance Sheet	-			-		70,343.64
Basic and Diluted Earnings per share (Face Value of ₹10/- each)	3.27	0.15	(0.01)	3.70	0.26	0.34

Note:-The above is an extract of the detailed format of the Quarterly and Nine months ended Consolidated Unaudited Financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015. The full format of the Financial results are available on the stock exchange website www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website www.oswalagromills.com.

For Oswal Agro Mills Limited sd/-Narinder Kumar CEO and Whole Time Director DIN: 01936066

Place: - New Delhi Regd. Office: Near Jain Colony, Vijay Inder Nagar, Daba Road, Ludhiana - 141 003 (Punjab) | Contact: 0161- 2544313; website: www.oswalagromills.com; Email ID: oswal@oswalagromills.com

Date: - 28-01-2025















	31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही और नीमाही के लिए अलेखापरीक्ष्तित वितीय परिणामी का विवारण (क. लाख में)												
क्र. म	Form		समाप्त तिमा	वि	समाज	समापा वर्ष							
н.		३६.१३.३०३४ (स्रोकार्योक्त)	३६.३५.३६३४ (स्त्रीक्षणीहर)	अर्थात्रकात्र (अभिमानविद्याः)	श.च.उठान (अतिभागविद्या)	११.१२.३११३ (अतेश्वरतिहर)	21-02-2024 (वैश्वापविद्वा						
1	प्रवासर्गे से कुल एकाव	-											
	अन अम	0.86			0.86	1-							
2	कवि हेतु निवत लाग्न(हरि) (का, सम्बद्धि तम्मकव्य सदामाल गर्ते से पूर्व)	(24.91)	(1.66)	(1.95)	(28.33)	(5.23)	(10.16)						
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवत साध्य(द्वरि) (अञ्चलित उच्छाजमक असम्याग कर्ते के कार)	(24.91)	(1.66)	(1.95)	(28.33)	(5.23)	(10.16)						
4	कर प्रस्तात अर्थम हेतू रिक्त लाम(इति) (अध्यक्ति उत्तरअस्य अञ्चलम गर्वे के बार)	(24.91)	(1.66)	(1.95)	(28.33)	(5.23)	(10.16)						
5	कवि हेतु कुत न्यान्क कान [अवधि हेतु (कर परनात) ताफ(हति) तथा सन्य न्यान्क कान (कर परनात) समित]	(24.91)	(1.66)	(1.95)	(28.33)	(5.23)	(10.16)						
6	इक्किटी शेवर पूंची (खेंकेत मूल्य रू. 10/- प्रति शेवर)	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27						
7	प्रति शेषा आप (अधायात्म गर्ते से पूर्व) (१. १८/- प्रत्येक) (वर्षिक गर्री)												
-	(a) चेंगिक	(0.58)	(0.04)	(0.05)	(0.66)	(0.12)	(0.24)						
	(b) व्यक्तिकेट	(0.58)	(0.04)	(0.05)	(0.66)	(0.12)	(0.24)						
8	प्रति सेवा आप (अशायात्त्र गर्ते के परनात) (१. १८/– प्रत्येक) (वर्षिक गर्ते)	(4.30)	, and a	(0.125)	, in the state of	(4114)	(4.8.5)						
	(2) বঁলিক	(0.58)	(0.04)	(0.05)	(0.66)	(0.12)	(0.24)						
	(b) व्यर्शस्त्रेट	(0.58)	(0.04)	(0.05)	(0.66)	(0.12)	(0.24)						

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईट, बेसर्स गुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल २, मुथूट वेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि—682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरमाष: +91 484-2396478, 2394712, फ़ैक्स: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (30.06.2023 तक की अवधि के लिए NPA खाते और 31.07.2024 की अबधि तक के कम दंच/कम शुद्धता/अपर्याप्त वजन कटौती खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक समी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

प्रथम नीलामीँ की तिथि: 06.02.2025 वागपरा-(धप्र) (4961): MUL-1026, 1034, RGL-1842, 1865, 2066, 2068, 2073, SRS-14, 17, 70, 71

द्वितीय नीलागी की तिथि: 07.02.2025, नीलामी स्थान: मुख्ट फाईनान्स लिमिटेड, निचला तल, ऑपटी नं. 22, वार्ड नं. 02, बंधन बैंक के पास, बाहरी बस्ती, बड़ौत रोड, मुख्य दिल्ली सहारनपुर रोड, एसएच-57, बागपत, उ.म.-250609 प्रथम नीलामी की तिथि: 06.02.2025

नोप्टना (0308): MDL-2658, 3294, 3355, 3362, MEG-164, MUL-11055, 11351, 11685, 11863, 11930, 12114, SRS-198, 283, 372, 404, 471, नोएडा संकटर-22 (1094): MAL-4512, MDL-2444, 2989, 3490, MUL-18898, 19395, 19440, 19553, 19595, 19678, 19747, 19752, 19996, 20026, 20172, SRS-232, 미국화 학교로학15 (1102): MAL-3075, MDD-51, MDL-1531, 2288, 2311, 2410, 2436, MEG-244, MUL-12699, 12751, 12792, 12812, 12870, 12889, 12993, 13146, SRS-37, 185, 210, 237, 249, **गोएका शेक्टर-18 (1185)**: MDL-2506, 2604, 3037, 3679, 3686, 3836, 3845, MEG-252, 302, MUL-17256, 17374, 17882, 17901, 18024, 18341, 18553, 18650, 18654, SRS-185, 220, 224, 243, 250, TMS-52, भंगेल-नोएडा दावरी रोड (**4508**): BLS-55, MDD-148, MDL-1507, 2200, MEG-76, MUL-7235, 7957, 8079, 8100, 8117, 8289, 8359, 8487, SRS-35, 124, 158, 214, 254, 260, 282, 305, 306, 323, 324, 락로쉯·(남자) (4630): MDL-2168, 2211, RGL-5666, 5688, 6649, 7462, 7763, 7906, 8319, 8545, 8561, 8562, 8666, 8668, 8735, 8771, 8925, 8975, 9079 9351, 9400, 9498, 9535, SRS-267, 268, 305, 329, 334, 369, 372, 373, 374, 385, 409, लालकुओ-चिपियाना (उप्र) (**4699**): MUL-4764, RGL-3400, 3401, 3469, 3476, 3597, 3613, SRS-134, 172, 173, होशियारपुर-(जत्र) (4786): MEG-227, 230, 318, MUL-6221, 6231, 6250, 6313, 6372, 6382, 6388, 6389, 6474, 6503, 6542, 6575, 6586, 6675, 6679, 6680, SRS-41, 42, 125, 143, 171, 196, TMS-34, कासना-नोएडा-(उप्र) (5013): MDL-241, 671, 806, 1064, MEG-110, 121, 334, MUL-3461, 3588, 3660, 3690, 3691, 3695, 3750, 3751. 3803, 3815, 3876, 3903, 3949, 3962, 3963, 3964, 3973, 3996, SRS-8, 23, 84, 107, जेवेर-नोएडा-(खप्र) (5024): BLS-85. MDD-9. MEG-266, RGL-1210, मामुरा-छम्न (5042): MDL-598, MEG-83, MUL-1028, 1068, 1071, 1087, 1293, 1355, SRS-4. स्रजपर नोएडा-(उप्र) (5083): MDL-696, 741, MUL-1927, 2253, 2298, 2314, 2527, SRS-21 कम टंब/कम शुद्धता/अपर्याप्त वजन कटौती: नोएडा सेक्टर-15 (1102): MHP-772

द्वितीय नीलामी की तिथि: 08.02.2025, नीलामी स्थान:मुबूट फाईनान्स लिमिटेड, पहली मंजिल, बैसोया कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, मैकडोनाल्ड के पास, रोक्टर-15, नया गौस नोएडा उ.प्र.-201301

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संवालित की जाएगी। हालाँकि, कृपया वह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियाँ) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी द्वितीय नीलागी की तारीख को क्रमशः दिये गए नीलागी केंद्र में संवातित की जाएगी / जारी रहेगी आगामी और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सब के बावजूद कथित गहुनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती ऐसी नीलामी आगामी तिथियाँ में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोब्दी, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-॥. नई दिल्ली-110024 नोट: ग्राहळ नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे बलाइंट की बकामा राशि का भूगतान करके अपने गहनों की निर्दी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: recoverynorth@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।



रवान: मुन्द्री **段初春**: 27.01.2025

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

बैक ऑफिसः लक्ष्मी इंश्योरेंस बिल्डिंग, आसफ अली रोड, नई दिल्ली - 110002 ई-नीलामी विक्री सचना

चूंकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एलआईसी एचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं / गारंटरों को मांग नोटिस जारी कर उनसे उक्त नोटिस में उल्लिखित बकाया देय राशि का भुगतान करने का आह्वान किया है। हालाँकि, उधारकर्ता / बंधककर्ता / गारंटर उक्त देय राशि चुकाने में विफल रहे हैं. नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने नियम 8 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत भौतिक कब्जा ले लिया है।

यह नोटिस आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) / गारंटर (ओं) को दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति एलआईसी एचएफएल को बंधक रखी गई है, जिसका कब्जा एलआईसी एचएफएल के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है को "जहां है जैसा है", "जैसा है वैसा" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। और नीलामी की तारीख के आधार पर बिना किसी सहारे के, नीचे दिए गए संक्षिप्त विवरण के अनुसार:

संपत्ति 1 - उधारकर्ता(ओं) का नाम -श्री रजत आनंद (आवेदक), श्रीमतीमीनाक्षी आनंद (सह-आवेदक) और श्री पवन आनंद (गारंटर) ऋण संख्याः 312400000028 और 312400000428 सम्पत्ति का पताः

संपत्ति का पूरा विवरण:- पूरी निर्मित पहली मंजिल, बिना छत के अधिकार और बिना पार्किंग अधिकार के निर्मित संपत्ति संख्या 1118–ए और पुरानी संख्या 483 / 1, भूमि क्षेत्रफल 64 वर्ग गज, छत के अधिकार के साथ, खसरा संख्या 321 में से सलीमपुर माजरा, मादीपुर, दिल्ली राज्य, दिल्ली, अब रानी बाग के नाम से जानी जाने वाली कॉलोनी. शकर बस्ती, दिल्ली 110034, कल क्षेत्रफल 53.51 वर्ग मीटर, सीमा:- उत्तर में: अन्य की संपत्ति, दक्षिण में' अन्य की संपत्ति, पूर्व में: गली, पश्चिम में: गली

मांग सूचना की तिथिः 07.08.2023	
मांग की गई राशिः रु. 24,69,760 /— और व्याज, लागत एवं खर्षे	
कब्जा सूचना की तिथिः भौतिक कब्जा 18.01.2025	
आरक्षित मूल्य : रु. 21,12,000/— (रु. इक्कीस लाख बारह हजार मात्र)	
धरोहर राशि : रु. 2,11,200 /— (रु. दो लाख न्यारह हजार दो सी मात्र)	
दिनांक 29.01.2025 तक कुल बकाया राशिः रु. 31,61,547.5 (रु. इकतीस लाख इकसठ हजार पाँच सी सँतालीस और पै	
सम्पर्क व्यक्तिः श्री राजीव सेठी	सम्पर्क विवरणः 8860001900
संपत्त व्याक्तः श्रा राजाव सता संपत्ति के दस्तावेजों की फोटोकॉपी के निरीक्षण की तिथि और समयः संपत्ति का पता जहां दस्तावेजों का निरीक्षण किया जा सकता है:	सम्पर्क विवरणः 8860001900 26.02.2025 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे के बीच एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बैक ऑफिस:— लक्ष्मी इंश्योरेंस बिल्डिंग, आसफ अली रोड, नई दिल्ली 110002
संपत्ति के दस्तावेजों की फोटोकॉपी के निरीक्षण की तिथि और समयः संपत्ति का पता जहां दस्तावेजों का निरीक्षण किया जा	26.02.2025 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे के बीच एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बैक ऑफिस:— लक्ष्मी

दोपहर 2:00 बजे तक नीलामी के अन्य सभी नियम और शर्ते आधिकारिक वेबसाइट https://online.lichousing.com/eauction/ पर अनुलग्नक 2

ऑनलाइन निविदा/बोली जमा करने की अंतिम तिथिः

ई-नीलामी तिथिः

सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वैधानिक 30 दिन की बिक्री सूचना

का पताः मेसर्स 4 क्लोजर, 605 ए, 6वीं मंजिल, मैत्रीवनम,

एचएमडीए, अमीरपेट, हैदराबाद 500038, तेलंगानाय हेल्पलाइन डेस्कः लैंडलाइनः 040-23736405 या 8142000062 / 66, टी.जय प्रकाश रेड्डी प्रबंधक संचालन

मोबाइल नंबर: -8142000064, ई-मेल आईडी:

दिनांक और किस समय तक:- 28.02.2025 शाम 5:00 बजे से पहले नीलामी की तिथि और समय अवधिः 03.03.2025 सुबह 11:00 बजे से

prakash@bankauctions.in

हस्ता / प्राधिकृत अधिकारी दिनांकः 29.01.2025, स्थानः दिल्ली

शिवालिक स्मॉल फाइबैंस बैंक लिभिटेड

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए नीलामी सह बिक्री सूचना हेतु

परिशिष्ट - IV-क ।नियम 8(6) का परंतक देखें।

वितीय आरितयों का प्रतिमृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिमृति हित प्रवर्तन अपिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियमावती, 2002 के नियम 8(6) र परंतुक के तहत अचल आरितयों की बिक्री के संबंध में खुली नीलामी बिक्री सूचना। एतदहारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचन दी जाती है कि प्रत्यामूत लेनदार के पास बंघक/प्रमारित नीचे वर्गित अवल सम्पत्ति, जिसका प्रलक्षित कब्जा प्रत्यामूत लेनदार, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रापिकृत अपिकारी द्वारा लिया जा चुका है, 1. श्री सुखपाल सिंह पुत्र रिधपाल सिंह राणा (कर्जदार) गिवासी मकान जंबर 293, गली जंबर 7, आम सदरपुर कालोगी, निकट शिव मंदिर, सेक्टर-45, गोएठा, गौरामबुद्ध नगर, उतार प्रदेश-201301, 2 श्री शहूल शणा पुत्र रिछपाल सिंह शणा (सह-कर्णदार) निवासी मकान जंबर 293, गली नंबर 7 प्राम सदरपुर कालोनी, निकट शिव मंदिर, सेक्टर-45, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301, 3. परमानंद यादव पुत्र रामनिवास यादव (गारंटर) निवासी ग्राम कंचा अमीरपुर, विद्युत नगर, निकट एनटीपीसी एवं आईटीआई रक्ल, गौतमबुद्ध नगर, उतार प्रदेश-201301, 4. प्रमाकर सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह (गारंटर) निवासी मकान नंबर 39, 40 महीजद्दीनपुर कनावनी, नोएडा, तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301, 5. कान्ति देवी पत्नी सुखपाल सिंह राणा (गारंटर/बंगकदाता) निवासी मकान गंबर 293, गली गंबर 7, ग्राम सदरपुर कालोगी, गिकट शिव मंदिर, सेक्टर—45, नोएख, नौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश—201301 की तरफ प्रत्यामूत लेनदार, शिवालिर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की 27-02-2023 तक बकाया राशि रूपये 24,34,000/- (रूपये चौबीस लाख चौतीस हजार मात्र) + उसके परचात ब्याज और प्रमार्च की वसूली के लिए दिनांक 05 मार्च 2025 को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो कुछ मी वहां है" के आपार पर बेची जाएगी।

सुर्रतित मुन्य कार्य १,12,800/- (कार्य एक लाख बारह हजार आठ सी मात्र) होगा तथा परोहर राशि जमा बोली राशि की 10% अर्थात कपये 11,280/- (कपये स्थार हजार दो सौ अरसी मात्र) होगी, पश्चवर्ती राशि बैंक में 04-03-2025 को अध्यवा पूर्व अप. 5 बजे तक जमा करानी होगी। जिसका विवरण नीचे दिया गया है :-

कर्जदार(री) / गारंटर(री) का नाम	मांग सूचना विषि और मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि	अपल सन्पत्तियों का वर्णन	सुरवित मूल्य	घरोहर राजि जमा (ईएमडी)
1. श्री सुख्याल सिंह पुत्र रिष्णाल सिंह राणा (कर्णदार) निवासी मकान नंबर 293, गली नंबर 7, ग्राम सदरपुर कालोगी, निकट शिव मंदिर, सेक्टर-45, गोएडा, गौलम्बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301, 2 श्री राहुल राणा पुत्र रिष्णाल सिंह राणा (सह-कर्णदार) निवासी मकान नंबर 293, गली नंबर 7, ग्राम सदरपुर कालोगी, निकट शिव मंदिर, सेक्टर-45, गोएडा, गौलम्बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301, 3. परमानंद वादव पुत्र रामनिवास बादव (गारंटर) निवासी ग्राम कंचा अमीरपुर, विशुत नगर, निकट एनटीपीसी एवं आईटीआई स्कृत, गौलम्बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301, 4. प्रणाकर सिंह पुत्र सुरेन्द सिंह (गारंटर) निवासी मकान नंबर 39, 40 मधीउद्दीनपुर कनावनी, नोएडा, तहसील दादरी, जिला गौलम्बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301, 5. कान्ति देवी पत्नी सुख्याल सिंह राणा (गारंटर/बंबकदाता) निवासी मकान नंबर 293, गली नंबर 7, ग्राम सदरपुर कालोगी, निकट शिव मंदिर, संकटर-45, गोएडा, गौलमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301 (क्रण खाता सं 101941003003)	27-02-2023 रूपये 24,34,000/- (रूपये चौनीस लाख चौतीस हजार मात्र)	अचल सम्पत्तियों के सभी अंश एवं एंड : आवासीय सम्पत्ति परिमाप 50 वर्ग गल अर्थात 41.8 वर्ग मीटर, एससरा नंबर 30, डाम — ऊंचा अमीरपुर, जिला गीतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश—201304, बढी नंबर 1, जिल्द नंबर 8960, फेज नंबर 1 से 16 क्रम संख्या 23239, दिनाविका 18—12—2015 के राजस्य अभिलेख में कान्ति देवी पत्नी सुखपाल सिंह के नाम में पंजीकृत।	(रूपये एक लाख बारह हजार आठ	सुरक्षित मूल्य की 10% रूपये 11,280/— (रूपये ग्यारह हजार दो सौ अस्सी मात्र)

नीलामी की तिथि तथा बोली खोलने का समय :- 05 मार्च, 2025 को 1000 बजे से 1200 बजे तक

ऑफर्स/ईएमडी जमा करने हेतु अंतिम तिथि: 🗀 🖂 मार्च, 2025 अप. 5.00 बजे तक

https://shivalikbank.com/auction_of_bank_properties.php देखें। विक्री के महत्वपूर्ण निवम एवं कर्ते : (1) सम्पतित "जैसी है जहां है, जो है वहां है तथा कोई उपाय नहीं आधार पर बेची जा रही है, अतएव यह बिक्री बिना किसी वारंटी और धतिपतिं के है। सम्पति:/दस्तावेजों का निरीक्षण बैंक के प्रापिकृत अधिकारी के पास उपरोक्त तिथि और समय पर किया जा सकता है।

बोली दस्तावेज/फार्म, जिसमें बिक्री के सभी सामान्य निवम और शर्ते दी गई हैं, बैंक के ऊपर वर्णित शाखा कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवर

बिक्री के विस्तुत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपना प्रत्यामूत लेनदार, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की वेबसाइट में उपलब्ध कराया गया लिंग

को प्राप्तिकृत अधिकारी से प्राप्त किए जा सकते हैं। इच्छक बोलीदाताओं को निर्मारित बोली फार्म पर अपनी सीलबंद बोलियां बैंक के प्राप्तिकृत अधिकारी को भेजनी चाहिए बोती सीलबंद दिकाफे में, जिस पर गीलामी सम्पति के लिए बोली का उल्लेख किया गया हो, 'शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेट' के पहा में आहरित गोएडा में देव टिमांट ट्रापट के रूप में संलग ईएमटी (बोली राशि की 10%) के साथ 04 मार्च, 2025 को शाम 5.00 बजे तक बैंक के उपरोक्त शाखा कार्यालय में जमा करनी होगी। अपूर्ण बोलियां या ऑतेम तिथि और समय के बाद प्राप्त होने वाली बोलियां अवैघ मानी जाएंगी और तदनुसार अस्वीकृत कर दी जाएंगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। बोलीदाता द्वारा बोली प्रस्तुत किए जाने के बाद, उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। सीलबंद बोलियां 05 मार्च, 2025 को 1000-1200 बजे बैंक के उपरोक्त शाक्षा कार्यालय में उस समय उपस्थित बोलीदाताओं की उपस्थित में खोली जाएंगी और उसके बाद पात्र बोलीदाताओं को ऑफर मूल्य बदाने के लिए परस्थर बोली में भाग लेने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर अवसर दिया जा सकता है।

प्रस्तुत की जाने वाली बोली का मूल्य सुरक्षित मूल्य से अधिक होगी और बोलीदाता अपनी ऑफर 50,000/- रुपये के गुणकों में बद्धा सकेगा। सन्पति प्राधिकृत अधिका हारा निर्मारित सुरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी।

सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 25% (ईएमटी सहित) राशि शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेट के पक्ष में नोएटा में देव टिमांट द्वापट द्वारा तत्काल औ अधिकतम अगले कार्य दिवस तक जमा करनी होगी और बिक्री मुख्य की रोष चात्रि सफल बोलीदाता हाच बैंक द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के मीतर भुगता-की जाएगी। इच्छुक बोलीदाताओं हात भुकतान की गई ईएमडी और बिकी मूज्य पर कोई बाज नहीं दिया जाएगा। यदि सफल बोलीदाता बिकी की शतों का पातन कर में विफल रास्ता है या कोई चूक करता है, तो ईएमडी या 25% की जमा राशि, जो भी मामला हो, बैंक हारा जन्त कर ली जाएगी।

बैंक प्रस्तावित सम्पति या किसी अन्य बकाया जैसे कि बकाया पानी/बिजली बकाया, सम्पति कर, नगरपालिका/पंचायत कर या अन्य शुल्क यदि कोई हो, के संबंध किसी प्राधिकरण या किसी अन्य लागू कानून के तहत कोई अनुमति/एनओसी प्राप्त करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।

सफल बोतीदाता को विकास प्राधिकरण के बकाया सहित सभी व्ययाँ, यदि कोई हो, का वहन करना होगा, जिसमें कर/उपयोगिता बिल आदि नगर निगम या किसी अ प्राधिकरण/एजेंसी को तथा 'बिक्री प्रमाण-पत्र' के पंजीकरण के लिए स्टान्प कबूटी/पंजीकरण शुल्क आदि के लिए देव शुल्क शामिल हैं।

प्राप्तिकृत अधिकारी का किसी भी या सभी ऑफर्स/बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए बिक्री को स्थगित/निरस्त करने या बिना किर्स

पूर्व सूचना के बिक्री की शतों को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार और विवेकाधिकार सुरक्षित है। क बार दी गई बोली को निरस्त या वापस नहीं लिया जा सकता है।

बैंक को, अपने सर्वोत्तम च्रान और जानकारी के अनुसार, बेची जाने वाली सम्पत्ति पर बैंक को छोड़कर किसी भी तरह के मार की जानकारी नहीं है। इच्छक पत्नों को अपनी संतुष्टि के लिए सम्पतित का अपना आकलन स्वयं करना चाहिए। बैंक किसी भी तरह से उपरोक्त सम्पतित की उपयुक्तता/स्वामित्व के बारे में कोई गाउंटी या प्रतिनिधित नहीं करता है। किसी अन्य जानकारी के लिए प्राधिकृत अधिकारी को उक्त सम्पत्ति के संबंध में सरकार या किसी अन्य को किसी भी प्रभार, ग्रहणाधिका ऋषमार, सम्परित कर या किसी अन्य बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं उहत्तया जाएगा। कर्जदार/कंकदाता/गारंटर को यह नोटिस दिया जाता है कि वे बिक्री के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें और वे बिक्री के नियमों और शतौं के विवरण के अनुसार, ऊपर वर्णित अवल सम्परित खरीदने के लिए इच्छुक खरीदारों /खरीदारों को ला सकते हैं।

ज्ञां जनस्त सम्परित सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेची जाएगी। तथापि, ऊघोहस्तावारी को परस्पर बोली लगाने की अनुमति देने का पूर्ण विवेकाधिकार है, यदि आवश्य समझा जाता है।

(13) बैंक सम्पति पर ऐसी किसी भी देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं है जो बैंक की जानकारी में नहीं है।

(34) कर्जदार/बंगकदारा/गारंटर को एतदद्वारा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के तहत अचल प्रत्यामून आस्ति की बिक्री का 30 दिन का कानूनी नोटिस दिया जाता है, जिसे हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण में समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है, कि वे पूर्ण रूप से दाकिव का निर्वहन करें तथा उपरोक्त देय राशियं का भुगतान अरातन ब्याज एवं व्ययों सहित इस नोटिस की तिथि से तीस दिन के अन्दर करें, अन्वथा प्रत्याभूत सम्पति उपरोक्त निवम एवं कर्तों के अनुसार बेबी जाएगी। यदि अंग्रेजी एवं स्थानीय समावार पत्रों में बिकी नोटिस के प्रकारन में कोई विसंगति हैं. तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी समावार पत्र स्थानीय समावार पत्र का स्थान से लेगा तथा उसे अंतिम प्रति माना जाएगा, जिससे अस्पण्टता दूर हो जाएगी। यदि कर्जदार/गारंटर/अंघकदाता बिक्री की तिथि से पूर्व बैंक को देव राशि का पूर्व मुगतान कर देते हैं, तो नीतामी रोक दी जाएगी। हालांकि, ऐसे मामलों में, नोटिस में बकाया राशि पर ऋण दस्तावेजों के अनुसार लागू ब्याज लगाया जाएगा और आकस्मिक व्यः लागत आदि इसकी वसुली तक देय होंगे।

(15) प्रांपिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम बाध्यकारी है और इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह माना जाएगा कि सभी बोलीदाता, जिनके हारा बोली प्रस्तुत की गई है नीलामी बिक्री के नियम एवं शतों को पढ़ और समझ चुके हैं और वे उन्हें मानने के लिए बाध्य होंगे।

(96) विवरण, सहायवा, प्रक्रिया और बोली लगाने के लिए संगावित बोलीदाता संपर्क कर सकते हैं :-- श्री सिद्धार्थ सिन्दा, सम्पर्क नंबर 9811864937.

कृपया प्यान दें कि प्रत्याभूत लेनदार, बैंक सभी कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर/बंधकदाताओं को उनके पते पर ठाक हात बिक्री नोटिस जारी करने जा रहा है। वरि किसी भी पक्ष द्वारा इसे प्राप्त नहीं किया जाता है, तो बिक्री नोटिस के इस प्रकाशन को विकल्प रूप में तामील माना जा सकता है।

कर्जदार/सह-कर्जदार/मारंटर/बंघकदाताओं को यह भी सूचित किया जाता है कि उन्हें अपने परेलू सामान, जो उपरोक्त परिसर में हैं/बैंक की अभिरखा में हैं, यदि कोई हो, तो इस प्रकाशन के 15 दिनों के पीतर पूर्व अनुभित लेकर उन्हें प्राप्त लेना चाहिए, अन्यत्था बैंक की उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और वह कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर/बंधकदाताओं के जोखिम पर उनका निपटान करेगा तथा बिक्री से प्राप्त राशि को बकाया राशि में समायोजित करेगा।

यदि किसी भी कारण से नीलामी विफल हो जाती है, तो कम्पनी उपरोक्त बंघक सम्प्रतियां सरकासी अधिनियम, 2002 के तहत अधिदेशित प्राक्यानों के अनुसार निजी सीं

के माध्यम से बेचने के लिए स्वतंत्र होगी। प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटे देनांक : 23-01-2025 स्थान : नोएडा

PTC India Financial Services Limited



STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024 (# in large)

				Sta	andalone					Consc	olidated		
S.	Particulars	C	uarter ende	d	Nine mo	nths ended	Year ended		Quarter end	ed	Nine mon	ths ended	Year ended
No.	100000000000000000000000000000000000000	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
		31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024	31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024
1	Total income from operations	15,807.15	16,339.79	20,432.20	48,269.29	58,431.94	76,078.27	15,807.15	16,339.79	20,432.20	48,269.29	58,431.94	76,078.27
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	8,067.25	6,340.60	6,748.20	20,342.33	19,671.27	21,597.80	8,067.25	6,340.60	6,748.20	20,342.33	19,671.27	21,597.80
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	8,067.25	6,340.60	6,748.20	20,342.33	19,671.27	21,597.80	8,067.25	6,340.60	6,748.20	20,342.33	19,671.27	21,597.80
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	6,714.96	4,734.08	5,036.80	15,889.26	14,689.95	16,074.90	6,714.96	4,734.08	5,036.80	15,889.26	14,689.95	16,074.90
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	6,624.84	4,703.61	4,995.38	15,756.73	14,616.06	15,992.53	6,624.84	4,703.61	4,995.38	15,756.73	14,616.06	15,992.53
6	Equity Share Capital	64,228.33	64,228.33	64,228.33	64,228.33	64,228.33	64,228.33	64,228.33	64,228.33	64,228.33	64,228.33	64,228.33	64,228.33
7	Reserves (excluding revaluation reserves as per balance sheet as at March 31, 2024)						1,89,645.75						1,89,645.75
8	Earnings per share (not annualised) (Face value ₹ 10 per share) in ₹							100			8	Ø 8.	
	- Basic	1.05	0.74	0.78	2.47	2.29	2.50	1.05	0.74	0.78	2.47	2.29	2.50
	- Diluted	1.05	0.74	0.78	2.47	2.29	2.50	1.05	0.74	0.78	2.47	2.29	2.50

Place: New Delhi

Date: January 28, 2025

The above is an extract of the detailed format filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results is available on the Stock Exchange websites of NSE and BSE at www.nseindia.com and www.bseindia.com/respectively and Company's website at http://www.ptcfinancial.com/financialinformation.html.

For and on behalf of the Board of Directors

Balaji Rangachari Managing Director and CEO

(CIN: L65999DL2006PLC153373)

Registered Office: 7th Floor, Telephone Exchange Building, 8 Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110066, India Board: +91 11 26737300 / 26737400 Fax: 26737373 / 26737374

Website: www.ptcfinancial.com, E-mail: info@ptcfinancial.com